

09804

Bachelor's Preparatory Programme (B.P.P.)

(For Non 10+2)

Term-End Examination

June, 2016

PCO-01 : PREPARATORY COURSE IN COMMERCE

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम (बी.पी.पी.)

(बिना 10+2)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2016

पी.सी.ओ.-01 : वाणिज्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

General Instructions :

Preparatory Course in Commerce (PCO-01)

Questions 1 – 50

- (i) *This is an objective type question paper. Options for the correct answer must be marked only in OMR sheet.*
- (ii) *All questions are **compulsory**.*
- (iii) *The question paper consists of **50** questions each of which carries **one** mark.*
- (iv) *Each question has four alternatives, one of which is correct. Write the Sl. No. of your correct alternative / answer below the corresponding question number in the OMR sheet and then mark the rectangle for the same number in that column. If you find that none of the given alternatives is correct then write 0 and mark in column 0.*
- (v) *Do not waste time in reading the whole question paper. Go on solving questions one by one. You may come back to the left out questions, if you have time at the end.*

सामान्य निर्देश :

वाणिज्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम (पी.सी.ओ.-01)

प्रश्न 1 – 50

- (i) यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र है । प्रश्नों के सही विकल्प केवल OMR शीट में लिखिए ।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (iii) इस प्रश्न-पत्र में 50 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है ।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है । ओ.एम.आर. शीट में निर्देशानुसार सही विकल्प । उत्तर का क्रमांक संगत प्रश्न संख्या के नीचे लिखें और फिर उसी क्रमांक के आयत पर उसी कॉलम में चिह्न लगाएँ । अगर आप पाएँ कि कोई भी विकल्प सही नहीं है तो 0 लिखें और कॉलम 0 में चिह्न लगाएँ ।
- (v) पूरे प्रश्न-पत्र को पढ़ने में समय बर्बाद मत कीजिए । एक के बाद एक प्रश्न को करते जाइए । यदि बाद में समय रहे, तो बचे हुए प्रश्नों को दुबारा देखा जा सकता है ।

1. The dual aspect concept of recording business transactions is called
 - (1) Double entry system
 - (2) Double account system
 - (3) Single entry system
 - (4) Hybrid system

2. The basic function of financial accounting is
 - (1) To classify and record all business transactions
 - (2) To interpret financial data
 - (3) To assist management
 - (4) To ascertain the progress of business

3. Which of the following will **not** be recorded in the books of accounts ?
 - (1) Cash withdrawn by the owner from the business
 - (2) Rent paid
 - (3) Gift received
 - (4) Cartage

4. The amount of salary paid to Anil should be debited to
 - (1) Anil's account
 - (2) Salary account
 - (3) Cash account
 - (4) Wages account

5. Goods returned to supplier should be credited to
 - (1) Supplier's account
 - (2) Purchases returns account
 - (3) Cash account
 - (4) Purchases account

6. Received ₹ 1,980 against the amount due ₹ 2,000 with discount allowed ₹ 20. The amount of discount allowed should be debited to
 - (1) Discount account
 - (2) Sales account
 - (3) Personal account
 - (4) Profit and Loss account

1. व्यावसायिक लेनदेन रिकॉर्ड करने की द्विपक्षीय संकल्पना (Dual aspect concept) कहलाती है
 - (1) दोहरा लेखा प्रणाली
 - (2) दोहरा खाता प्रणाली
 - (3) इकहरा लेखा प्रणाली
 - (4) मिश्रित (Hybrid) प्रणाली

2. वित्तीय लेखाकरण का आधारभूत कार्य है
 - (1) सभी व्यावसायिक लेनदेनों का वर्गीकरण एवं रिकॉर्ड करना
 - (2) वित्तीय आँकड़ों का निर्वचन करना
 - (3) प्रबन्धकों की सहायता करना
 - (4) व्यवसाय की उन्नति अभिनिश्चित करना

3. निम्नलिखित में से किसे लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा ?
 - (1) स्वामी द्वारा व्यवसाय से राशि का आहरण
 - (2) किराया दिया
 - (3) उपहार प्राप्त हुआ
 - (4) ढुलाई व्यय

4. अनिल को भुगतान की गई वेतन की राशि को डेबिट किया जाना चाहिए
 - (1) अनिल के खाते में
 - (2) वेतन खाते में
 - (3) रोकड़ खाते में
 - (4) मज़दूरी खाते में

5. सप्लायर को वापस किया गया माल क्रेडिट किया जाना चाहिए
 - (1) सप्लायर के खाते में
 - (2) क्रय वापसी खाते में
 - (3) रोकड़ खाते में
 - (4) क्रय खाते में

6. प्राप्त होने वाली ₹ 2,000 की राशि के संदर्भ में ₹ 1,980 प्राप्त हुए और ₹ 20 की कटौती हुई। कटौती की राशि को डेबिट किया जाना चाहिए

(1) कटौती खाते में	(2) विक्रय खाते में
(3) व्यक्तिगत खाते में	(4) लाभ-हानि खाते में

7. In case of bad debts, its amount should be credited to
- (1) Debtor's account
 - (2) Bad debts account
 - (3) Sales account
 - (4) Profit and Loss account
8. Which of the following is *not* a personal account ?
- (1) Rent prepaid account
 - (2) Rohan's account
 - (3) ABC Ltd. account
 - (4) Bad debts account
9. Double entry system of book-keeping means
- (1) Entry in two sets of books
 - (2) Entry for two aspects of a transaction
 - (3) Entry at two places
 - (4) Entry on two sides of an account
10. Writing a brief description about the transaction in Particulars column in Journal is called
- | | |
|-------------|------------------|
| (1) Posting | (2) Narration |
| (3) Entry | (4) Journalising |
11. Purchase of furniture is debited to
- (1) Purchases account
 - (2) Goods account
 - (3) Furniture account
 - (4) Cash account
12. When bad debts are recovered, they should be credited to
- (1) Bad debts recovered account
 - (2) Bad debts account
 - (3) Debtor's account
 - (4) Cash account

7. अशोध्ध ऋण (Bad debts) की राशि को क्रेडिट किया जाना चाहिए
- (1) देनदार के खाते में
 - (2) अशोध्ध ऋण खाते में
 - (3) विक्रय खाते में
 - (4) लाभ-हानि खाते में
8. निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तिगत खाता *नहीं* है ?
- (1) पूर्वदत्त किराया खाता
 - (2) रोहन का खाता
 - (3) ए.बी.सी. लि. खाता
 - (4) अशोध्ध ऋण खाता
9. बहीखाता की दोहरा लेखा प्रणाली से तात्पर्य है
- (1) दो लेखाबहियों में प्रविष्टि करना
 - (2) लेनदेन के दो पक्षों की प्रविष्टि करना
 - (3) दो स्थानों पर प्रविष्टि करना
 - (4) खाते के दो पक्षों में प्रविष्टि करना
10. जर्नल के विवरण (Particulars) कॉलम में लेनदेन का संक्षिप्त वर्णन लिखा जाना कहलाता है
- (1) खतौनी
 - (2) व्याख्या (Narration)
 - (3) प्रविष्टि
 - (4) जर्नल प्रविष्टि करना
11. फर्नीचर का क्रय डेबिट किया जाएगा
- (1) क्रय खाते में
 - (2) माल खाते में
 - (3) फर्नीचर खाते में
 - (4) रोकड़ खाते में
12. जब अशोध्ध ऋण की वसूली हो जाती है, तो उसे क्रेडिट किया जाना चाहिए
- (1) अशोध्ध ऋण वसूली खाते को
 - (2) अशोध्ध ऋण खाते को
 - (3) संबद्ध देनदार के खाते को
 - (4) रोकड़ खाते को

13. The liabilities of a firm are ₹ 60,000; the claims of the owner are ₹ 1,40,000. The total assets will be
- (1) ₹ 60,000
 - (2) ₹ 1,40,000
 - (3) ₹ 2,00,000
 - (4) ₹ 80,000
14. Which of the following accounts is **not** a real account ?
- (1) Salary account
 - (2) Furniture account
 - (3) Building account
 - (4) Cash account
15. Purchases Journal is used for recording
- (1) Credit purchases of goods
 - (2) All purchases of goods
 - (3) Cash purchases of goods
 - (4) All cash purchases
16. According to which concept is the entity of business treated separate from its owner ?
- (1) Matching concept
 - (2) Dual aspect concept
 - (3) Business entity concept
 - (4) Realisation concept
17. Which of the following transactions is **not** entered in the Cash Book ?
- (1) Cash sales
 - (2) Rent paid
 - (3) Cash discount
 - (4) Trade discount
18. Buying and selling activity is called
- | | |
|--------------|--------------|
| (1) Commerce | (2) Industry |
| (3) Trade | (4) Business |

13. एक फर्म की देयताएँ हैं ₹ 60,000; स्वामी की दायित्वियाँ हैं ₹ 1,40,000। उसकी कुल परिसम्पत्तियों की राशि होगी
- (1) ₹ 60,000
 - (2) ₹ 1,40,000
 - (3) ₹ 2,00,000
 - (4) ₹ 80,000
14. निम्नलिखित में से कौन-सा खाता वास्तविक खाता **नहीं** है ?
- (1) वेतन खाता
 - (2) फर्नीचर खाता
 - (3) भवन खाता
 - (4) रोकड़ खाता
15. क्रय जर्नल का उपयोग रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है
- (1) माल के उधार क्रय को
 - (2) माल के सभी प्रकार के क्रय को
 - (3) माल के नकद क्रय को
 - (4) सभी प्रकार के नकद क्रय को
16. किस संकल्पना के अनुसार एक व्यावसायिक इकाई को उसके स्वामी से अलग माना जाता है ?
- (1) मिलान की संकल्पना
 - (2) द्विपक्षीय संकल्पना
 - (3) व्यावसायिक इकाई संकल्पना
 - (4) वसूली संकल्पना
17. निम्नलिखित में से किस लेनदेन की रोकड़ बही में प्रविष्टि **नहीं** की जाती ?
- (1) नकद विक्रय
 - (2) किराए का भुगतान
 - (3) नकद कटौती (छूट)
 - (4) व्यापारिक कटौती (छूट)
18. क्रय तथा विक्रय की क्रिया कहलाती है
- | | |
|---------------------|------------------------|
| (1) वाणिज्य | (2) उद्योग |
| (3) व्यापार (Trade) | (4) व्यवसाय (Business) |

- 19.** When both the debit and credit aspects of a transaction are recorded in the Cash Book, it is called
- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) Opening entry | (2) Double entry |
| (3) Closing entry | (4) Contra entry |
- 20.** The main aim of preparing a Trial Balance is
- (1) To prepare final accounts
 - (2) To know the financial position of business
 - (3) To test the accuracy of posting
 - (4) To find out gross profit
- 21.** Journal Proper is meant for recording
- (1) Credit purchases of fixed assets
 - (2) Cash purchases of fixed assets
 - (3) Return of goods purchased
 - (4) All such transactions for which no special journal is kept
- 22.** Bank Reconciliation Statement is a
- (1) Ledger account
 - (2) Part of Cash Book with bank column
 - (3) Statement which reconciles the balances as per Pass book and Cash Book
 - (4) Pass book statement
- 23.** If payment of a Bill of Exchange is made before the due date, it is called
- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) Retiring the Bill | (2) Honouring the Bill |
| (3) Endorsing the Bill | (4) Retaining the Bill |
- 24.** Maintenance charges of a fixed asset is a
- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| (1) Capital expenditure | (2) Revenue expenditure |
| (3) Revenue loss | (4) Deferred revenue expenditure |
- 25.** A basis of accounting according to which accounts are prepared for cash received and cash paid is called
- | | |
|-----------------|-------------------|
| (1) Cash basis | (2) Accrual basis |
| (3) Mixed basis | (4) Dual basis |

19. जब किसी लेनदेन के दोनों पक्षों (डेबिट एवं क्रेडिट) का रोकड़ बही में रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसे कहा जाता है
- (1) प्रारम्भिक प्रविष्टि (2) दोहरी प्रविष्टि
(3) संवरण प्रविष्टि (Closing entry) (4) प्रति प्रविष्टि (Contra entry)
20. तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य है
- (1) अंतिम लेखे तैयार करना
(2) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना
(3) खतौनी की शुद्धता की जाँच करना
(4) सकल लाभ ज्ञात करना
21. मुख्य जर्नल (Journal Proper) रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है
- (1) स्थायी परिसम्पत्तियों के उधार क्रयों को
(2) स्थायी परिसम्पत्तियों के नकद क्रयों को
(3) क्रय किए गए माल की वापसी को
(4) ऐसे सभी लेनदेनों को जिनके लिए कोई विशेष जर्नल नहीं बनाया जाता
22. बैंक समाधान-विवरण है
- (1) एक लेजर खाता
(2) बैंक कॉलम वाली रोकड़ बही का एक भाग
(3) एक ऐसा विवरण जो रोकड़ बही द्वारा दिखाए गए बैंक शेष का पासबुक द्वारा दिखाए गए शेष के साथ मिलान करता है
(4) पासबुक का विवरण
23. यदि किसी विनिमय बिल का भुगतान उसकी देय तिथि से पहले किया जाता है, तो उसे कहा जाता है
- (1) बिल का रिटायर होना (2) बिल का आदर करना
(3) बिल का बेचान करना (4) बिल को रखे रहना
24. एक स्थायी परिसम्पत्ति के रख-रखाव पर किया गया व्यय कहलाता है
- (1) पूँजीगत व्यय (2) आयगत व्यय
(3) आयगत हानि (4) आस्थगित आयगत व्यय
25. लेखांकन का ऐसा आधार जिसके अंतर्गत रोकड़ प्राप्ति एवं रोकड़ भुगतान के आधार पर लेखा प्रविष्टियाँ की जाती हैं, कहलाता है
- (1) रोकड़ आधार (2) उपार्जन आधार
(3) मिश्रित आधार (4) दोहरा आधार

- 26.** Goods worth ₹ 2,000 received back by the company were taken in stock, but no entry was made. What type of error is this ?
- (1) Commission (2) Principle
(3) Omission (4) Compensatory
- 27.** Nominal accounts are related to
- (1) Liabilities only
(2) Expenses, incomes, losses and gains
(3) Assets only
(4) Expenses and losses only
- 28.** Patents are examples of
- (1) Fixed assets (2) Current assets
(3) Intangible assets (4) Liquid assets
- 29.** Outstanding income is shown in the Balance Sheet as
- (1) Fixed assets
(2) Current assets
(3) Short-term liability
(4) Long-term liability
- 30.** Which of the following expenses are shown on the debit side of Profit and Loss account ?
- (1) Carriage outward
(2) Wages and salaries
(3) Carriage inwards
(4) Goods returned
- 31.** 'Wages and Salaries' are shown in
- (1) Profit and Loss account
(2) Trading account
(3) Balance Sheet
(4) Profit and Loss Appropriation account

26. ₹ 2,000 का कम्पनी को वापस प्राप्त हुआ माल स्टॉक में शामिल कर लिया गया, लेकिन उसके लिए कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की गई। यह किस प्रकार की अशुद्धि है ?

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (1) लेखाकार्य की अशुद्धि | (2) सैद्धांतिक अशुद्धि |
| (3) लोप की अशुद्धि | (4) परिपूरक अशुद्धि |

27. आय-व्यय खाते सम्बन्धित हैं

- (1) केवल देयताओं से
- (2) व्ययों, आयों, हानियों तथा लाभों से
- (3) केवल परिसम्पत्तियों से
- (4) केवल व्ययों तथा हानियों से

28. पेटेंट्स (Patents) उदाहरण हैं

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) स्थायी परिसम्पत्तियों के | (2) चालू परिसम्पत्तियों के |
| (3) अमूर्त परिसम्पत्तियों के | (4) तरल परिसम्पत्तियों के |

29. बकाया (उपार्जित) आय बैलेंस शीट में दिखायी जाती है

- (1) स्थायी परिसम्पत्तियों के रूप में
- (2) चालू परिसम्पत्तियों के रूप में
- (3) अल्पकालीन देयता के रूप में
- (4) दीर्घकालीन देयता के रूप में

30. निम्नलिखित में से किस व्यय को लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा ?

- (1) जावक दुलाई
- (2) मज़दूरी एवं वेतन
- (3) आवक दुलाई
- (4) वापस प्राप्त हुआ माल

31. 'मज़दूरी एवं वेतन' की राशि को दिखाया जाता है

- (1) लाभ-हानि खाते में
- (2) व्यापार खाते में
- (3) बैलेंस शीट में
- (4) लाभ-हानि विनियोजन खाते में

- 32.** Preliminary expenses are an example of a
- (1) Capital expenditure
 - (2) Revenue expenditure
 - (3) Deferred revenue expenditure
 - (4) Development expenditure
- 33.** An example of fictitious asset is
- (1) Preliminary expenses
 - (2) Discount allowed
 - (3) Prepaid rent
 - (4) All of the above
- 34.** Current liabilities are liabilities payable
- (1) After one year
 - (2) Within one year
 - (3) Within five years
 - (4) After five years
- 35.** Overcasting of Purchases Journal would affect
- (1) Sales account
 - (2) Purchases account
 - (3) Supplier's account and Purchases account
 - (4) Supplier's account
- 36.** Which of the following is a deferred revenue expenditure ?
- (1) Expenditure on formation of a company
 - (2) Depreciation on fixed assets
 - (3) Expenditure incurred for buying goods for resale
 - (4) Interest on loan taken for business
- 37.** ₹ 10,00,000 spent in developing a new area for an estate is a
- (1) Capital loss
 - (2) Capital expenditure
 - (3) Revenue expenditure
 - (4) Revenue loss
- 38.** Shiva started business with ₹ 2,00,000. He purchased goods on credit from Girish for ₹ 25,000. His total business assets will be
- (1) ₹ 2,25,000
 - (2) ₹ 2,00,000
 - (3) ₹ 1,75,000
 - (4) ₹ 1,50,000

32. प्रारम्भिक व्यय उदाहरण हैं एक
- (1) पूँजीगत व्यय का
 - (2) आयगत व्यय का
 - (3) आस्थगित आयगत व्यय का
 - (4) विकास व्यय का
33. एक काल्पनिक (नाममात्र की) परिसम्पत्ति का उदाहरण है
- (1) प्रारम्भिक व्यय
 - (2) कटौती प्रदान की
 - (3) पूर्वदत्त किराया
 - (4) उपर्युक्त सभी
34. चालू देयताएँ ऐसी देयताएँ हैं जो देय होती हैं
- (1) एक वर्ष बाद
 - (2) एक वर्ष के भीतर
 - (3) पाँच वर्ष के भीतर
 - (4) पाँच वर्ष के बाद
35. क्रय जर्नल का योग अधिक लगाया जाना प्रभावित करेगा
- (1) विक्रय खाते को
 - (2) क्रय खाते को
 - (3) सप्लायर के खाते तथा क्रय खाते को
 - (4) सप्लायर के खाते को
36. निम्नलिखित में से कौन-सी मद एक आस्थगित आयगत व्यय है ?
- (1) एक कम्पनी के निर्माण पर किया गया व्यय
 - (2) स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास
 - (3) पुनर्विक्रय के लिए क्रय किए गए माल पर किया गया व्यय
 - (4) व्यवसाय के लिए प्राप्त ऋण पर दिया गया ब्याज
37. एक संपदा (Estate) के लिए किसी नवीन क्षेत्र के विकास पर किया गया ₹ 10,00,000 का व्यय है एक
- (1) पूँजीगत हानि
 - (2) पूँजीगत व्यय
 - (3) आयगत व्यय
 - (4) आयगत हानि
38. शिवा ने ₹ 2,00,000 की राशि से व्यवसाय प्रारम्भ किया। उसने गिरीश से ₹ 25,000 का माल उधार पर खरीदा। उसके व्यवसाय की कुल परिसम्पत्तियाँ होंगी
- (1) ₹ 2,25,000
 - (2) ₹ 2,00,000
 - (3) ₹ 1,75,000
 - (4) ₹ 1,50,000

39. 'Income received in advance' appearing in the Trial Balance will be shown in
- (1) Trading account
 - (2) Profit and Loss account
 - (3) Assets side of Balance Sheet
 - (4) Liabilities side of Balance Sheet
40. Outstanding salaries are shown in Balance Sheet as a
- (1) Current asset
 - (2) Liability
 - (3) Fixed asset
 - (4) Contingent liability
41. A loan of ₹ 10,000 was made on September 1 @ 6% per annum. No interest was paid till December 31. The accrued interest will be
- | | |
|-----------|-----------|
| (1) ₹ 150 | (2) ₹ 200 |
| (3) ₹ 500 | (4) ₹ 600 |
42. Opening stock : ₹ 15,000; Purchase of goods : ₹ 82,000; Direct expenses : ₹ 9,100; Indirect expenses : ₹ 10,500; and Closing stock : ₹ 18,000. The cost of goods sold will be
- | | |
|----------------|----------------|
| (1) ₹ 1,06,100 | (2) ₹ 1,16,600 |
| (3) ₹ 88,100 | (4) ₹ 98,100 |
43. A manager gets 10% commission on net profits after charging such commission. Before charging the commission the profits were ₹ 55,000. The commission will be
- | | |
|-------------|-------------|
| (1) ₹ 5,575 | (2) ₹ 5,000 |
| (3) ₹ 5,500 | (4) ₹ 6,000 |
44. Bad debts are ₹ 400; new provision for bad debts is ₹ 1,850 and old provision for bad debts is ₹ 60. The amount to be debited to Profit and Loss account in this context will be
- (1) ₹ 2,190
 - (2) ₹ 2,250
 - (3) ₹ 460
 - (4) ₹ 1,850

39. तलपट में दी हुई 'अग्रिम प्राप्त आय' दिखाई जाएगी
- (1) व्यापार खाते में
 - (2) लाभ-हानि खाते में
 - (3) बैलेंस शीट के परिसम्पत्तियाँ पक्ष में
 - (4) बैलेंस शीट के देयताएँ पक्ष में
40. अदत्त वेतन को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है
- (1) एक चालू परिसम्पत्ति के रूप में
 - (2) एक देयता के रूप में
 - (3) एक स्थायी परिसम्पत्ति के रूप में
 - (4) एक प्रासंगिक देयता के रूप में
41. सितंबर 1 को 6% प्रति वर्ष की दर पर ₹ 10,000 का एक ऋण दिया गया था, जिस पर 31 दिसंबर तक कोई ब्याज नहीं दिया गया। इस स्थिति में उपार्जित ब्याज की राशि होगी
- | | |
|-----------|-----------|
| (1) ₹ 150 | (2) ₹ 200 |
| (3) ₹ 500 | (4) ₹ 600 |
42. प्रारम्भिक स्टॉक : ₹ 15,000; माल का क्रय : ₹ 82,000; प्रत्यक्ष व्यय : ₹ 9,100;
अप्रत्यक्ष व्यय : ₹ 10,500; तथा अंतिम स्टॉक : ₹ 18,000. बेचे गए माल की लागत होगी
- | | |
|----------------|----------------|
| (1) ₹ 1,06,100 | (2) ₹ 1,16,600 |
| (3) ₹ 88,100 | (4) ₹ 98,100 |
43. एक मैनेजर को उसके कमीशन की राशि घटाने के बाद के निवल लाभ पर 10% की दर से कमीशन मिलता है। यदि कमीशन घटाने से पूर्व के लाभ की राशि ₹ 55,000 है, तो कमीशन की राशि होगी
- | | |
|-------------|-------------|
| (1) ₹ 5,575 | (2) ₹ 5,000 |
| (3) ₹ 5,500 | (4) ₹ 6,000 |
44. अशोध्य ऋणों की राशि है ₹ 400; अशोध्य ऋणों के लिए नये प्रावधान की राशि है ₹ 1,850; तथा अशोध्य ऋणों के लिए पुराने प्रावधान की राशि है ₹ 60; इस संदर्भ में लाभ-हानि खाते में डेबिट की जाने वाली राशि क्या होगी ?
- (1) ₹ 2,190
 - (2) ₹ 2,250
 - (3) ₹ 460
 - (4) ₹ 1,850

45. Accounts are divided into
- (1) Personal accounts
 - (2) Real accounts
 - (3) Nominal accounts
 - (4) All of the above
46. The concept of costs and revenues comparison is
- (1) Matching concept
 - (2) Consistency concept
 - (3) Materiality concept
 - (4) Going concern concept
47. Sale of old newspaper will be recorded in
- (1) Liabilities side of Balance Sheet
 - (2) Trading account
 - (3) Profit and Loss account
 - (4) Assets side of Balance Sheet
48. Which of the following is *false* ?
- (1) $\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Capital}$
 - (2) $\text{Liabilities} = \text{Assets} - \text{Capital}$
 - (3) $\text{Capital} = \text{Assets} - \text{Expenses}$
 - (4) $\text{Capital} = \text{Assets} - \text{Liabilities}$
49. Amount realised from the sale of scrap is adjusted in the
- (1) Cost of goods sold
 - (2) Cost of goods produced
 - (3) Profit and Loss account
 - (4) Trading account
50. Manufacturing account is prepared to ascertain
- (1) Cost of goods sold
 - (2) Cost of goods produced
 - (3) Cost of goods purchased
 - (4) Cost of work-in-progress

45. खातों को बाँटा जाता है
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (1) व्यक्तिगत खातों में | (2) वास्तविक खातों में |
| (3) आय-व्यय खातों में | (4) उपर्युक्त सभी में |
46. लागत तथा आगम की तुलना की संकल्पना कहलाती है
- (1) मिलान की संकल्पना
 - (2) एकरूपता की संकल्पना
 - (3) महत्त्व की संकल्पना
 - (4) चालू व्यवसाय की संकल्पना
47. पुराने समाचार-पत्रों के विक्रय की राशि रिकॉर्ड की जाएगी
- (1) बैलेंस शीट की देयताओं में
 - (2) व्यापार खाते में
 - (3) लाभ-हानि खाते में
 - (4) बैलेंस शीट के परिसम्पत्तियाँ पक्ष में
48. निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण *गलत* है ?
- (1) परिसम्पत्तियाँ = देयताएँ + पूँजी
 - (2) देयताएँ = परिसम्पत्तियाँ - पूँजी
 - (3) पूँजी = परिसम्पत्तियाँ - व्यय
 - (4) पूँजी = परिसम्पत्तियाँ - देयताएँ
49. रद्दी (Scrap) के विक्रय से प्राप्त हुई राशि समायोजित की जाएगी
- (1) बेचे गए माल की लागत में
 - (2) उत्पादित किए गए माल की लागत में
 - (3) लाभ-हानि खाते में
 - (4) व्यापार खाते में
50. विनिर्माण खाता किसे ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है ?
- (1) बेचे गए माल की लागत
 - (2) उत्पादित किए गए माल की लागत
 - (3) क्रय किए गए माल की लागत
 - (4) अर्द्ध-निर्मित माल की लागत